



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ 1934 (श०)
(सं० पटना 125) पटना, मंगलवार, 12 फरवरी 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

8 फरवरी 2013

सं० नि०प्रा०/नि० 1-22/2012/192—बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 (क) (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा 5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, बिहारशरीफ, नालन्दा (ii) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, सिवान एवं (iii) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, मधुबनी के निर्वाचन के लिए संबंधित सदर अनुमंडल पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. संबंधित सदर अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी उक्त संघ के निर्वाचन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ उप समाहर्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. संबंधित सदर अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) के निर्देशन एवं नियंत्रण में संबंधित संघ का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 125-571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>